

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबंधक,

महोदय / महोदया,

कृपया मा० कुलपति जी के निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 14-01-2020 को अपराह्न 3:30 बजे मालवीय सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रबंधकगण के मध्य एक वृहद बैठक आहूत की गयी है, जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है।

उक्त समागम में लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष को अविस्मरणीय स्वरूप देने हेतु निम्नन्वत को मूर्तरूप दिया जाना है .

01. शताब्दी वर्ष के अवसर पर समस्त महाविद्यालय आगामी 26 जनवरी अपने - अपने परिसर में वृक्षारोपण करेंगे |
02. लखनऊ विश्वविद्यालय की अनूठी विरासत जो पुरातन काल से परंपरा के रूप में संरक्षित है, में अकादमिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु सेमिनार / सिम्पोजियम, अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स आदि का आयोजन शताब्दी वर्ष-पर्यंत करेंगे।
03. समस्त महाविद्यालय अपने-अपने संस्थान में शताब्दी वर्ष की अवधारणारूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष पर्यंत करेंगे |
04. समस्त महाविद्यालय छात्र /छात्राओं का अध्ययन अवधि में प्लेसमेंट एवं रोजगार से सम्बंधित कार्यो/ नीतियों का सृजन करेंगे | जिसमे विश्वविद्यालय के " काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल " के द्वारा यथा साध्य सहयोग प्राप्त होगा।
05. समस्त महाविद्यालय अपने-अपने संस्थान में शताब्दी वर्ष भारत सरकार / उत्तर प्रदेश, सरकार की जनोपयोगी नीतिओ / योजनाओ यथा- स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढाओ-बेटी बचाओ, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, सब पढे-सब बढे, स्टार्ट-अप एवं नवाचार के कार्यक्रम जिससे शिक्षार्थियों को चारित्रिक / बौद्धिक विकास के हेतु प्रेरित करेंगे |
06. समस्त महाविद्यालय शोध के क्षेत्रो में लखनऊ विश्वविद्यालय की विशिष्टता जो जगप्रसिद्ध है, में यथेष्ट प्रतिबद्धता से सहयोग करेंगे
07. शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु समस्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे जिससे अकादमिक विकास को गति एवं बल प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के परिपेक्ष में आपसे अनुरोध है की माननीय कुलपति जी की मंशा एवं भावना के अनुरूप समर्पित भाव से सहयोग अपेक्षित है।

भवदिया

प्रो०मधुरिमा लाल

डीन,

महाविद्यालय विकास परिषद्,

ल०वि०वि०, लखनऊ

दूरभाष : 9454323847

नोट: कृपया अपनी गाड़ी गेट न० 2पर पार्क करें